

Ref: STL /SE/ 2024-2025/Newspaper Publication/14

Dated:24th May, 2024

To,
Department of Corporate Services,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

To,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
C-1, G-Block, Bandra-Kurla Complex
Bandra, (E), Mumbai – 400 051

BSE Code: 541163; NSE: SANDHAR

Sub: Copy of Published Audited (Standalone & Consolidated) Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2024

Dear Sir/Madam,

Please find attached herewith the copy Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter and Year ended 31st March, 2024 as published in requisite newspaper as per the requirement of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED

Yashpal Jain
(Chief Financial Officer & Company Secretary)
M. No. A13981

Encl.: As above

Sandhar Technologies Limited

IPL to boxing, IIT Madras packs a punch with AI


SHINE JACOB
Chennai, 23 May

Royal Challengers Bengaluru (RCB) are out of the Indian Premier League (IPL) this season, but they have made a splash by actively incorporating artificial intelligence (AI) and data analytics to enhance player performance developed by the Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras).

The Faf Du Plessis-led side examined a bevy of net bowlers using a treasure trove of data using an AI technology developed by the premier institute.

Not just cricket, but experts at the premier institute are grooming other sports tech startups in chess, boxing, badminton, tennis, and wrestling. ESPNcricinfo has unveiled the 'Player Impact Score' based on a Sports Analytics Algorithm developed by IIT Madras. Fantasy league companies are also in talks with the institute for the development of similar offerings. IIT Madras Centre of Excellence in Sports Science and Analytics (CESSA)-developed algorithm has identified Kolkata Knight Riders all-rounder Sunil Narine as the most impactful player across all editions of the IPL.

"Our plan is to support around 30 sports tech startups every year. Over five years, we will groom nearly 200 such sports tech startups with the support of IIT Madras in the domain areas of computer vision, data analytics, AI, ML, and biomechanics," said Ramesh Kumar, chief executive officer of CESSA and former Global Head of ESPNcricinfo. Going forward, IIT Madras is working on four areas in the sector, which include technology to enhance player performance, analytics, education, and supporting sports tech startups.



Royal Challengers Bengaluru actively used AI and data analytics made by IIT Madras this IPL season PHOTO: BCCI

TOP FIVE IMPACT PLAYERS

Year	Player	Batting score	Bowling score
2015	Moises Henriques	31.69	45.59
2016	Chris Morris	30.77	30.01
2017	Ben Stokes	32.97	30.40
2018	Sunil Narine	33.78	34.21
2024	Sunil Narine	42.69	49.55

Source: IIT Madras

every year. Over five years, we will groom nearly 200 such sports tech startups with the support of IIT Madras in the domain areas of computer vision, data analytics, AI, ML, and biomechanics," said Ramesh Kumar, chief executive officer of CESSA and former Global Head of ESPNcricinfo. Going forward, IIT Madras is working on four areas in the sector, which include technology to enhance player performance, analytics, education, and supporting

sports tech startups. "We are planning to do some courses within IIT Madras in the education and training space. We are looking at supporting players in this space, which essentially leverages IoT, deep tech, and ML," Kumar added.

The ESPNcricinfo AI engine was developed by IIT Madras and Gyan Data, an IIT Madras-incubated startup, which analyses limited-overs cricket - T20s and ODIs - in a more nuanced manner than

conventional metrics.

"The advantage is that our predictive data is updated after every ball based on the performance of each player. The algorithm we developed at IIT Madras is a unique AI engine that leverages the rich data collected historically in cricket and the extensive models developed. It shows an interesting analysis of the performance often missed by fans and cricket observers. It was developed by scientific methods, processes, and complex algorithms based on machine learning," said Raghunathan Rengaswamy, Dean (Global Engagement), IIT Madras, and Co-Founder, Gyan Data.

Boxing is another sport where CESSA is working on implementing AI and analytics. Boxers at the Inspire Institute of Sports (IIS) in Vijayanagar are monitored through the SmartBoxer system developed by CESSA. Through multiple cameras, each bout is monitored and then broken down by AI tools to provide insights on how a player is utilising the ring, his movements, and punches.

"In digital chess, the challenge for federations is to know if anybody is taking the help of AI. Though there is frisking at tournaments, we are developing products that can red-flag if a player is resorting to such help," Kumar added.



SURYODAY
A BANK OF SMILES

SAVE MORE. EARN MORE.

Get up to **7.5% p.a.** & more on **SAVINGS ACCOUNT**
Get up to **9.1% p.a.** for Senior Citizens **FIXED DEPOSIT**

AUDITED FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR FY24

Gross Advances	₹8,650* CRORES	41.5% ▲	Disbursement	₹6,919 CRORES	36.1% ▲
Deposit	₹7,777 CRORES	50.5% ▲	PAT	₹216 CRORES	178% ▲
NIM	9.8%	34 bps ▲	RoE	12.9%	784 bps ▲
Pre-POP*	₹454 CRORES	34.5% ▲	Asset Quality	GNPA 2.8% 30 bps ▼	NNPA 0.8% 68 bps ▼

*Excluding CGFMU is ₹507 Crores

Particulars	Year Ended March 31, 2024	Year Ended March 31, 2023
1. Interest Earned	1,588.7	1,183.7
2. Total Income	1,808.1	1,281.1
3. Interest Expended	626.5	437.1
4. Operating Expenses	675.1	506.5
5. Operating Profit before Provisions, Contingencies & CGFMU(2-3-4)	506.5	337.5
6. Operating Profit before Provisions and Contingencies	453.9	337.5
7. Provisions (other than tax) and Contingencies	166.3	236.6
8. Profit (+)/ Loss (-) for the period (5-6)	287.6	100.9
9. Tax expense	71.6	23.2
10. Net Profit (+)/Loss (-) for the period (7-8)	216.0	77.7
11. Ratios		
(i) Debt Equity Ratio**	1.55	1.96
(ii) NPA Ratios		
a) % of Gross NPA	2.8%	3.1%
b) % of Net NPA	0.8%	1.5%
RoA	2.1%	0.9%
RoE	12.9%	5.1%

*Includes IBPC of ₹ 400 Crores

**Debt represents total borrowings excluding deposits | #Excluding Technical Write-off

This is a voluntary information in addition to statutory submission/publications made as per requirements.

Navi Mumbai
9 May, 2024

Baskar Babu Ramachandran
Managing Director and CEO
DIN: 02303132

Registered & Corporate Office: Suryoday Small Finance Bank Limited

1101, Sharada Terraces, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614

suryodaybank.com | CIN:L65923MH2008PLC261472 | Follow us: [in](#) [fb](#) [tw](#) [ig](#)


For information on banking products, give a missed-call ☎ 99308 99888

[TECH DIGEST]

mybs.in/tech

KIA EV3 SUV DEBUTS WITH AI VOICE ASSISTANT

South Korean automobile maker Kia has unveiled the EV3 compact SUV. Among the headline features is an artificial intelligence-powered voice assistant, a first in the company's electric vehicle fleet. The AI assistant is powered by ChatGPT, the generative AI-chatbot from Microsoft-backed OpenAI.



Truecaller users can create AI version of calls

Caller ID company Truecaller has announced a partnership with Microsoft to utilise a new personal voice technology from Microsoft Azure AI Speech. With this, users can record digital versions of their voice within the app.

POCO F6 launched

Qualcomm's Snapdragon 8s Gen 3 chip debuts in India with the POCO F6 launch. The smartphone is offered in up to 12GB LPDDR5x RAM and up to 512GB UFS 4.0 storage configuration at ₹29,999 onwards. The smartphone's key features are AI-powered image editing tools.

Personal Finance, Insight Out

Personal Finance, Monday to Saturday

To book your copy, sms [reaches](tel:097575) to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard
Years of Insight

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

DIT Central Office, CBD Belapur
Short Notice Inviting Tenders
Central Bank of India invites sealed bids for Tender No. 404 RFP for "Empanelment of Service providers for providing E-Procurement Services".
Deadline for Tender submission is 14/06/2024 up to 15:00 hrs.
For details, please visit our website: www.centralbankofindia.co.in
Chief Manager-Admin

Dish TV India Ltd

DISH TV INDIA LIMITED
Corp. Office: FC - 19, Sector 16 A, Noida - 201301, U.P.
Regd. Office: Office No. 803, 8th Floor, DLH Park, S. V. Road, Goregaon (West), Mumbai-400062
E-mail: investor@dishd2h.com, CIN: L51909MH1988PLC287553, Website: www.dishd2h.com
Tel: 0120-5047000, Fax: 0120-4357078

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the members of Dish TV India Limited (Company) will be held on **Friday, June 14, 2024 at 11:30 A.M. (IST)** through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the businesses as set forth in the notice of the EGM of the Company dated **May 20, 2024**, in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), read with applicable guidelines/circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA circulars) and Securities and Exchange Board of India (SEBI Circulars) (collectively referred to as "Relevant Circulars").

In compliance with the Relevant Circulars, the Notice of the EGM along with explanatory statement has been electronically sent on Thursday, May 23, 2024 to those members who have registered their email addresses with the Company/Depository Participant(s). Members may note that the EGM Notice along with Explanatory statement will also be made available on the Company's website at www.dishd2h.com, on the Website of the BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. The relevant documents pertaining to the items of the businesses to be transacted at the EGM shall be kept open for inspection by the members online during the EGM through video-conference.

The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company. Members participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of Proxies by the Members will not be available since this EGM is being conducted through VC/OAVM.

Instructions for remote E-voting and E-voting during the EGM:

- Pursuant to section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is pleased to provide the facility to the members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at EGM. Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on Friday, June 7, 2024 (cut-off date), can cast their vote electronically through electronic voting system (remote e-voting) of NSDL at www.evoting.nsdl.com. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting at the EGM.
- The remote e-voting period will commence at 9:00 AM (IST) on Tuesday, June 11, 2024 and will end at 5:00 PM (IST) on Thursday, June 13, 2024. Thereafter, the E-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is casted by members, the members cannot modify it subsequently.
- Members who have acquired shares after the sending of this notice and before the cut-off date i.e. Friday, June 7, 2024, may obtain the USER ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.com or investors@dishd2h.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then they may use their existing USER ID and Password, and cast their vote. Members attending the EGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the EGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the EGM, however they shall not be eligible to vote at the meeting.
- Shareholders holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to get their email registered with the company's Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Private Limited by writing to RTA with their details. Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their e-mail addresses with the concerned Depository Participant(s).
- The detailed procedure of electronic voting is mentioned in the Notice of the EGM and is also available on the website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com. In case of queries, members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available in the download section of the e-voting website of NSDL www.evoting.nsdl.com. Members who need assistance before or during the EGM may send a request to NSDL at evoting@nsdl.com or Contact Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President or Ms. Pallavi Mhatre, Sr. Manager, at the designated email ID: evoting@nsdl.com or call at toll free no. - 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.
- Any query or grievance connected with the EGM, other than E-Voting, may be addressed to the Company Secretary at investor@dishd2h.com or members may contact to Ms. Surabhi Gangatkar, Link Intime India Private Limited, the Registrar & Share Transfer Agent of the Company at C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Tel: +91 022 49186270, Fax: +91 022 49186060, E-mail: rt.helpdesk@linkintime.co.in.

For Dish TV India Limited

Sd/-
Ranjit Singh
Company Secretary
Membership No: A15442

Place: Noida
Date: May 23, 2024

SANDHAR

Growth. Motivation. Better Life

SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED


CIN: L74999DL1987PLC029553

Regd. Office: B - 6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave, New Delhi 110029

Tel: 0124 - 4518900

E-mail: investors@sandhar.in

Website: www.sandhargroup.com



EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024

(₹ in lakhs, except per equity share data)

Sl. No.	Particulars	Consolidated				Standalone			
		Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended	
		31 March 2024	31 March 2023	31 March 2024	31 March 2023	31 March 2024	31 March 2023	31 March 2023	
1	Revenue from Operations	91,783.38	76,497.08	3,52,110.79	2,90,890.73	69,304.98	59,496.26	2,71,566.55	2,39,739.76
2	Net Profit for the period/ year (before tax, exceptional item and share of profit/ (loss) in joint ventures)	4,400.30	3,011.69	14,626.06	10,427.68	4,491.88	3,299.78	15,987.98	11,699.33
3	Net Profit for the period/ year (before tax after exceptional item and share of profit/ (loss) in joint ventures)	4,640.58	3,180.64	15,020.62	10,036.40	3,935.93	3,299.78	15,432.03	11,395.00
4	Net Profit for the period/ year (after tax, exceptional item and share of profit/ (loss) in joint ventures)	3,586.37	2,471.60	11,026.10	7,355.66	2,732.09	2,459.87	11,225.12	8,377.92
5	Total Comprehensive Income for the period/ year (Comprising Profit for the Period/ year after Tax and Other Comprehensive Income/ (Loss) after Tax)	3,453.86	2,465.43	11,169.50	7,566.54	2,860.65	2,440.00	11,384.36	8,244.19
6	Equity Share Capital	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07
7	Total Reserves	-	-	95,640.12	86,026.12	-	-	96,744.80	86,865.21
8	Earnings Per Share (Face value of ₹ 10/- per share) (not annualised for quarter)								
	1. Basic:	5.96	4.11	18.32	12.22	4.54	4.09	18.65	13.92
	2. Diluted:	5.96	4.11	18.32	12.22	4.54	4.09	18.65	13.92

Note:

The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended 31 March 2024 of Consolidated and Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Financial Results are available on the websites of the BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.sandhargroup.com.

For Sandhar Technologies Limited
JAYANT DAVAR
Co-Chairman and Managing Director

Place: Gurugram (Haryana)

Date: 23 May 2024

गिफ्ट में नहीं मिला साथ तो विलय पर भी नहीं बनी बात

खुशबू तिवारी
मुंबई, 23 मई

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने गिफ्ट सिटी आईएफएससी में अपनी इकाई इंडिया आईएनएक्स का एनएसई आईएक्स के साथ विलय रद्द कर दिया है। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि बीएसई और एनएसई करीब एक साल से इस विलय पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।



विलय सौदा रद्द

■ स्वैप अनुपात पर असहमति के कारण दोनों एक्सचेंजों के बीच नहीं बन पाई बात

■ बीएसई और एनएसई करीब एक साल से इस विलय पर बातचीत कर रहे थे

■ गिफ्ट निफ्टी ने अप्रैल में 82 अरब डॉलर का सर्वाधिक मासिक कारोबार दर्ज किया था

■ दोनों एक्सचेंजों के बीच भारत में शेयरों के कारोबार को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है

दोनों एक्सचेंजों के बीच तरलता का विभाजन दूर हो सकता था। पिछले साल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) के नियामकीय अधिकारियों ने संकेत दिया था कि दोनों एक्सचेंजों के बीच विलय वित्त वर्ष 2024 में पूरा हो जाएगा। बीएसई के मुख्य कार्याधिकारी एवं प्रबंध निदेशक सुंदरम राममूर्ति ने पहले संकेत दिया था कि इस महीने की शुरुआत में एक्सचेंज आईएफएससी में अकेले जा

सकता है। उन्होंने इस विलय से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा, 'हम चाहते हैं कि यह एक्सचेंज तेजी से आगे बढ़े और अच्छा प्रदर्शन करे। हां, हम इस तथ्य पर भी ध्यान दे रहे हैं कि कारोबार सुस्त पड़ रहा है। हम देश हित में हरसंभव प्रयास कर रहे हैं, जिससे गिफ्ट सिटी फलता-फूलता रहे और बढ़ता रहे और अधिकांश कारोबार एक्सचेंजों में आए। हम इससे जुड़े हुए हैं और आगे भी इसके साथ काम करते रहेंगे।'

ईएसजी खुलासा मानक बनेगा आसान!

खुशबू तिवारी
मुंबई, 23 मई

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों और उनकी वैल्यू चैन के भागीदारों के पर्यावरण, समाज और प्रशासन (ईएसजी) संबंधित खुलासा मानकों को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा है। बाजार नियामक सिर्फ उन वैल्यू चैन भागीदारों के लिए ईएसजी मानकों पर खुलासे को अनिवार्य करने की योजना बना रहा

है जिनके पास व्यक्तिगत रूप से मूल्य के हिसाब से कंपनी की खरीद या बिक्री का 2 प्रतिशत या अधिक हिस्सा है।

सेबी ने वैल्यू चैन भागीदारों के लिए खुलासे को अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार के बजाय पहले वर्ष के लिए स्वैच्छिक बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। पिछले निर्देश में कहा गया कि शीर्ष-250 सूचीबद्ध कंपनियों को वित्त वर्ष 2024-25 से अपनी सालाना रिपोर्टों में वैल्यू चैन भागीदारों के

ईएसजी मानकों का खुलासा करना होगा। यह खुलासा वैल्यू चैन भागीदारों के लिए है, जिसमें संचयी रूप से 75 प्रतिशत खरीद या बिक्री शामिल है। नए प्रस्ताव का लक्ष्य इस अनुपालन को आसान बनाना है। ये खुलासे बिजनेस रेस्यूसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) कोर के अनुरूप मुख्य संकेतकों का हिस्सा होंगे। बीआरएसआर कोर सीमित मानकों के साथ सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य ईएसजी डिस्कलोजर है।

भाजपा की सीटें 270 से कम रह गईं तो क्या गिरेगा बाजार

पुनीत वाघवा
नई दिल्ली, 23 मई

लोक सभा चुनाव समाप्ति की ओर हैं और अब सात में से सिर्फ दो चरण का मतदान बचा है। इस वजह से बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है। संसेक्स और निफ्टी-50 ऊंचे स्तरों पर टिके रहने में असमर्थ हैं।



कई विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा राजग सरकार फिर से सत्ता में आएगी और भाजपा नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन पार्टी का 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा मुश्किल लगता है।

परियोजनाओं से धन को सामाजिक पहलू की ओर ले जाया जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर में भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र पर दबाव बढ़ेगा, जिससे ज्यादा चल सकने वाली परियोजनाएं ही शुरू होंगी जबकि अन्य को बंद कर दिया जाएगा। 10 किलोग्राम निःशुल्क खाद्य वितरण से अनाज भंडार में कमी को बढ़ावा मिलेगा और यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) एवं मनरेगा की मजदूरी बढ़ने से अन्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। मुद्रास्फीति अल्पावधि में 6 प्रतिशत से ऊपर रहने का अनुमान है।

उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में राजग को 270 से कम सीटें मिलना बर्नस्टीन का अनुमानित परिदृश्य नहीं है। उन्हें लगभग 330-350 सीटों की अधिक संभावना दिख रही है जिससे नतीजों के बाद बाजार में थोड़ी तेजी आ सकती है। उन्हें उम्मीद है कि निफ्टी 50 सूचकांक 23,000 के स्तर को पार कर जाएगा लेकिन नतीजों के बाद तेजी से मुनाफावस्वली भी देखने को मिलेगी। गैर ने लिखा है, 'हमारा मानना है कि फोक्स अंततः वृहद परिदृश्य, आय वृद्धि, उचित मूल्यांकन आदि पर फिर से केंद्रित होगा।'

उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में राजग को 270 से कम सीटें मिलना बर्नस्टीन का अनुमानित परिदृश्य नहीं है। उन्हें लगभग 330-350 सीटों की अधिक संभावना दिख रही है जिससे नतीजों के बाद बाजार में थोड़ी तेजी आ सकती है। उन्हें उम्मीद है कि निफ्टी 50 सूचकांक 23,000 के स्तर को पार कर जाएगा लेकिन नतीजों के बाद तेजी से मुनाफावस्वली भी देखने को मिलेगी। गैर ने लिखा है, 'हमारा मानना है कि फोक्स अंततः वृहद परिदृश्य, आय वृद्धि, उचित मूल्यांकन आदि पर फिर से केंद्रित होगा।'

अदाणी का एमकैप 213 अरब डॉलर हुआ

गुरुवार को अदाणी समूह के सभी 10 शेयरों में तेजी आई और संयुक्त बाजार पूंजीकरण 63,282 करोड़ रुपये बढ़ गया। भाजपा सरकार को मौजूदा आम चुनाव में फिर से जीत मिलने की उम्मीद से समूह के शेयरों में तेजी आई। समूह का बाजार मूल्य बढ़कर 213 अरब डॉलर हो गया है, जो 24 जनवरी के बाद से सर्वाधिक है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसेच ने

समूह के खिलाफ 24 जनवरी को अपनी रिपोर्ट जारी की थी। अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 8 प्रतिशत चढ़ा और अदाणी पोर्ट्स में 4.7 प्रतिशत की तेजी आई। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि सत्ता में मौजूदा सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल में बने रहने की उम्मीद से यह तेजी आई है। इसके अलावा, छमाही समीक्षा के बाद संसेक्स में शामिल किए जाने की संभावना से भी

अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर में इजाफा हुआ है। अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदाणी टोटाल गैस और अदाणी विल्मर को छोड़कर समूह के अन्य सभी शेयर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद हुए नुकसान की ज्यादातर भरपाई कर चुके हैं। अदाणी पोर्ट्स और अदाणी विल्मर माजूदा समय में 24 जनवरी के स्तरों से करीब 90 प्रतिशत और 160 प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रहे हैं।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(पात सरकार का उपक्रम)
स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, संस्थागत बैंक,
सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110088
दूरभाष: 011-27944401
ई-मेल: stc.rohini@peb.co.in

निविदा सूचना
बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली में कैटरिंग सेवाओं के कार्य हेतु निविदा प्रस्ताव का अनुरोध करती है। विनिर्देश और अन्य संबंधित जानकारी तथा आरएफपी को बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/> <https://psb.eproc.in> और सीपीपीपी पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त निविदा के संबंध में अन्य परिवर्तन केवल बैंक की वेबसाइट पर सूचित किए जाएंगे।

प्रधानाचार्य एसटीसी

Honasa Consumer Limited
CIN: U74999DL2016PLC306016

Registered office: Unit No - 404, 4th floor, City Centre, Plot No 05, Sector-12, Dwarka, New Delhi - 110075, India
Website: www.honasa.in; Email: compliance@mamaearth.in; Telephone: +91 11 44 123544

Consolidated
YTD Mar 24
Revenue
Up by
29%

Consolidated
YTD Mar 24
PAT
Up by
173%

Extract of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024 (Amount in Rs. Million)

S No.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023
		Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Revenue from operations	4,710.94	4,882.15	3,878.55	19,199.04	14,927.48
2	Profit before exceptional items and taxes	392.54	347.19	(61.24)	1,471.30	136.57
3	Profit/(Loss) before tax	392.54	347.19	(1,608.21)	1,471.30	(1,410.40)
4	Profit/(Loss) after tax	304.75	259.01	(1,617.58)	1,105.28	(1,509.66)
5	Total comprehensive income/(loss), net of tax	304.12	260.86	(1,618.55)	1,106.43	(1,506.87)
6	Equity Share Capital	3,242.44	3,217.47	1,363.36	3,242.44	1,363.36
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	7,710.27	4,695.65
8	Earnings/(Loss) per equity share (of Rs.10/- each)					
	a) Basic	0.97	0.82	(5.22)	3.57	(4.66)
	b) Diluted	0.97	0.81	(5.22)	3.55	(4.66)

Note:
(a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the company's website www.honasa.in.

(b) Additional information on Standalone Financial Results is as follows:

S No	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023
		Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Revenue from operations	4,271.67	4,508.92	3,603.26	17,643.89	13,948.03
2	Profit/(Loss) before tax	368.44	370.69	(1,478.32)	1,582.79	(1,072.84)
3	Profit/(Loss) after tax	267.12	289.14	(1,514.90)	1,209.66	(1,205.56)

For and on behalf of Board of Directors of Honasa Consumer Limited

Varun Alagh
Chairperson, Whole Time Director and CEO
DIN:07597289
Gurugram
May 23, 2024

SANDHAR
Growth. Motivation. Better Life

SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED
CIN: L74999DL1987PLC029553
Regd. Office: B - 6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave, New Delhi 110029

Tel: 0124 - 4518900
E-mail: investors@sandhar.in
Website: www.sandhargroup.com

FOSTERING INNOVATION AND GROWTH

Consolidated FY 2024 Y-o-Y (₹ in Crs.)

Total Income	21% ↑	3,532	2,921
EBITDA	34% ↑	351	262
EBT	48% ↑	150	101

Consolidated Quarterly Y-o-Y (₹ in Crs.)

Total Income	19% ↑	920	771
EBITDA	36% ↑	100	74
EBT	46% ↑	46	32

EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024

Sl. No.	Particulars	Consolidated				Standalone			
		Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended	
		31 March 2024	31 March 2023	31 March 2024	31 March 2023	31 March 2024	31 March 2023	31 March 2024	31 March 2023
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Revenue from Operations	91,783.38	76,497.08	3,52,110.79	2,90,890.73	69,304.98	59,496.26	2,71,566.55	2,39,739.76
2	Net Profit for the period/ year (before tax, exceptional item and share of profit/ (loss) in joint ventures)	4,400.30	3,011.69	14,626.06	10,427.68	4,491.88	3,299.78	15,987.98	11,699.33
3	Net Profit for the period/ year (before tax after exceptional item and share of profit/ (loss) in joint ventures)	4,640.58	3,180.64	15,020.62	10,036.40	3,935.93	3,299.78	15,432.03	11,395.00
4	Net Profit for the period/ year (after tax, exceptional item and share of profit/ (loss) in joint ventures)	3,586.37	2,471.60	11,026.10	7,355.66	2,732.09	2,459.87	11,225.12	8,377.92
5	Total Comprehensive Income for the period/ year (Comprising Profit for the Period/ year after Tax and Other Comprehensive Income/ (Loss) after Tax)	3,453.86	2,465.43	11,169.50	7,566.54	2,860.65	2,440.00	11,384.36	8,244.19
6	Equity Share Capital	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07
7	Total Reserves	-	-	95,640.12	86,026.12	-	-	96,744.80	86,865.21
8	Earnings Per Share (Face value of ₹ 10/- per share) (not annualised for quarter)								
	1. Basic:	5.96	4.11	18.32	12.22	4.54	4.09	18.65	13.92
	2. Diluted:	5.96	4.11	18.32	12.22	4.54	4.09	18.65	13.92

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended 31 March 2024 of Consolidated and Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Financial Results are available on the websites of the BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.sandhargroup.com.

Place: Gurugram (Haryana)
Date: 23 May 2024

For Sandhar Technologies Limited
JAYANT DAVAR
Co-Chairman and Managing Director